



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19012024-251472  
CG-MH-E-19012024-251472

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2024/पौष 28, 1945

No. 240]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2024/PAUSHA 28, 1945

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई 17 जनवरी 2024

का.आ. 249(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 2008 कहा गया है) की धारा 20क के उप-खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के वडोदरा जिले “डभोई समलाया आमान परिवर्तन परियोजना (46.45 कि.मी.), समलाया रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज (8.40 कि.मी.) और लोटना बाय पास लाइन (7.55 कि.मी.) सहित” नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है;

उक्त भूमि के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी डभोई, तालुका सेवासदन कार्यालय डभोई और प्रांत अधिकारी सावली तालुका सेवासदन, कार्यालय सावली, जिला वडोदरा को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्টিशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और आक्षेपों की सुनवाई और जाँच करने के पश्चात् यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि की भूमि भूमि योजना और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

गुजरात राज्य में विशेष रेलवे परियोजना –“डभोई- समलाया आमान परिवर्तन परियोजना (46.45 कि.मी.), समलाया रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज (8.40 कि.मी.) और लोटना बाय पास लाइन (7.55 कि.मी.) सहित” परियोजना के लिए संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य : गुजरात

जिला : वडोदरा

अनुक्रमांक	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
जिला: वडोदरा तालुका: वाघोडिया				
गांव : रायनतलावडी				
1	164	वडोदरा म्युनिसिपल कारपोरेशन जमीन	सरकारी पडतर	76557
2	174	निजी	कृषि/जरायत	26479
3	202	निजी	कृषि/जरायत	381
4	96/32	निजी	कृषि/जरायत	13452
5	225	निजी	कृषि/जरायत	12184
6	181	निजी	कृषि/जरायत	762
7	184	निजी	कृषि/जरायत	9991
8	96/23	निजी	कृषि/जरायत	437
9	187	निजी	कृषि/जरायत	12640
10	194	निजी	कृषि/जरायत	6937
			कुल (वर्गमीटर)	159820
जिला: वडोदरा तालुका: वाघोडिया				
गांव : व्यंकटपुरा				
1	146	निजी	कृषि/जरायत	5853
2	144	निजी	कृषि/जरायत	5725
3	नहर	सरकारी	नहर	1450
4	364	निजी	कृषि/जरायत	435
5	10	निजी	कृषि/जरायत	448
6	363	निजी	कृषि/जरायत	1459
7	9	निजी	कृषि/जरायत	2159
8	362	निजी	कृषि/जरायत	188
9	8	सरकारी	सरकारी पडतर	2240
10	14	निजी	कृषि/जरायत	3545

11	16	निजी	कृषि/जरायत	2327
12	15	निजी	कृषि/जरायत	1761
13	19	निजी	कृषि/जरायत	2241
14	55	निजी	कृषि/जरायत	1455
15	51	निजी	कृषि/जरायत	1727
16	20	निजी	कृषि/जरायत	4048
17	50	निजी	कृषि/जरायत	1729
18	22	सरकारी	कृषि	898
19	43	निजी	कृषि/जरायत	1021
20	41	निजी	कृषि/जरायत	1158
21	42	सरकारी	कृषि/जरायत	172
22	390	निजी	कृषि/जरायत	601
23	115	निजी	कृषि/जरायत	107
24	387	निजी	कृषि/जरायत	6397
25	389	सरदार सरोवर पुनरवसाहत एजेंसी	कृषि	88
26	नहर	सरकारी	नहर	1621
27	386	सरदार सरोवर पुनरवसाहत एजेंसी	कृषि	111
28	385	निजी	कृषि/जरायत	2087
29	391	निजी	कृषि/जरायत	954
30	384	सरकारी	कृषि/जरायत	4659
31	99	निजी	कृषि/जरायत	244
32	63	निजी	कृषि/जरायत	454
			कुल (वर्गमीटर)	59362

जिला: बड़ोदरा तालुका: वाघोडिया

गांव : जरोद

1	1480	सरदार सरोवर पुनरवसाहत एजेंसी	कृषि/जरायत /	87
2	1840	निजी	कृषि/जरायत	433
3	1479	निजी	कृषि/जरायत /	925
4	1842	निजी	कृषि/जरायत /	809
5	1476	निजी	कृषि/जरायत /	361
6	1841	सरदार सरोवर पुनरवसाहत एजेंसी	कृषि/जरायत /	1792
7	1478	निजी	कृषि/जरायत /	432
8	1468	निजी	कृषि/जरायत /	255

9	1187/2 पैकी 4	निजी	कृषि/जरायत /	22
10	1466	सरकारी	सरकारी पडतर	2507
11	1839	सरकारी	सरकारी पडतर	4920
12	1838	निजी	कृषि/जरायत /	935
13	1322	निजी	कृषि/जरायत /	1993
14	1321	निजी	कृषि/जरायत /	5424
15	1453	निजी	कृषि/जरायत /	447
16	1333	निजी	कृषि/जरायत /	925
17	1837	निजी	कृषि/जरायत /	107
18	1352	निजी	कृषि/जरायत /	494
19	1836	निजी	कृषि/जरायत /	401
20	1835	निजी	कृषि/जरायत /	87
21	1346	निजी	कृषि/जरायत /	420
22	1347	निजी	कृषि/जरायत /	1958
23	1834	निजी	कृषि/जरायत /	3828
24	1830	निजी	कृषि/जरायत /	4577
25	1325	निजी	कृषि/जरायत /	2679
26	1827	निजी	कृषि/जरायत /	639
27	1298	निजी	कृषि/जरायत /	1825
28	1297	निजी	कृषि/जरायत /	1542
29	1294	निजी	कृषि/जरायत /	5033
30	1293	निजी	कृषि/जरायत /	1563
31	1295	निजी	कृषि/जरायत /	1302
32	1296	निजी	कृषि/जरायत /	1491
33	1030	निजी	कृषि/जरायत /	169
34	1229	निजी	कृषि/जरायत /	1214
35	1826	निजी	कृषि/जरायत /	532
36	1277	निजी	कृषि/जरायत /	2210
37	1825	निजी	कृषि/जरायत /	218
38	1280	निजी	कृषि/जरायत /	292
39	1232	निजी	कृषि/जरायत /	823
40	1231	निजी	कृषि/जरायत /	1287
41	1278	निजी	कृषि/जरायत /	892
42	1276	निजी	कृषि/जरायत /	1565
43	1233	निजी	कृषि/जरायत /	1219
44	1272	निजी	कृषि/जरायत /	3032

45	1274	निजी	कृषि/जरायत /	514
46	1823	निजी	कृषि/जरायत /	144
47	1822	निजी	कृषि/जरायत /	244
48	नंबर नहीं	निजी	कृषि/जरायत /	702
49	1273	निजी	कृषि/जरायत /	716
50	1275	निजी	कृषि/जरायत /	1646
51	1239	निजी	कृषि/जरायत /	559
52	1238	निजी	कृषि/जरायत /	749
53	1262	निजी	कृषि/जरायत /	146
54	1240	निजी	कृषि/जरायत /	1930
55	1245	निजी	कृषि/जरायत /	3572
56	1821	निजी	कृषि/जरायत /	308
57	नंबर नहीं	निजी	कृषि/जरायत /	34
58	1241	निजी	कृषि/जरायत /	898
59	1242	निजी	कृषि/जरायत /	424
60	1243	निजी	कृषि/जरायत /	395
61	1244	निजी	कृषि/जरायत /	858
62	1248	निजी	कृषि/जरायत /	1008
63	नंबर नहीं	निजी	कृषि/जरायत /	56
64	1820	निजी	कृषि/जरायत /	425
65	1247	निजी	कृषि/जरायत /	4194
66	1155	निजी	कृषि/जरायत /	1666
67	नंबर नहीं	निजी	कृषि/जरायत /	93
68	नंबर नहीं	निजी	कृषि/जरायत /	3308
69	नंबर नहीं	निजी	कृषि/जरायत /	782
70	1114	निजी	कृषि/जरायत /	1043
71	1819	निजी	कृषि/जरायत /	1626
72	1112	निजी	कृषि/जरायत /	1382
73	1115	निजी	कृषि/जरायत /	3121
74	1113	निजी	कृषि/जरायत /	120
75	1818	निजी	कृषि/जरायत /	2090
76	1116	निजी	कृषि/जरायत /	6195
77	नाला	सरकारी	नाला	164
78	1817	निजी	कृषि/जरायत /	1567
79	1118	निजी	कृषि/जरायत /	593
80	1117	निजी	कृषि/जरायत /	2978

81	1813	निजी	कृषि/जरायत /	2958
82	1815	सरकारी	सरकारी पडतर	865
83	1814	निजी	कृषि/जरायत /	1657
84	1142	निजी	कृषि/जरायत /	2230
85	1181	निजी	कृषि/जरायत /	13
86	1810	निजी	कृषि/जरायत /	97
87	797	सरकारी	रोड	522
88	799	निजी	कृषि/जरायत /	734
89	796	निजी	कृषि/जरायत /	317
90	1811	निजी	कृषि/जरायत /	1292
91	798	सरकारी	रोड	986
92	805	निजी	कृषि/जरायत /	466
93	1812	निजी	कृषि/जरायत /	2354
94	800	निजी	कृषि/जरायत /	1998
95	रोड	सरकारी	रोड	280
96	781	निजी	कृषि/जरायत /	1905
97	776	निजी	कृषि/जरायत /	2148
98	779	निजी	कृषि/जरायत /	2061
99	778	निजी	कृषि/जरायत /	1306
100	740	निजी	कृषि/जरायत /	912
101	739	निजी	कृषि/जरायत /	630
102	1807	निजी	कृषि/जरायत /	189
103	742	निजी	कृषि/जरायत /	1585
104	738	निजी	कृषि/जरायत /	498
105	1808	निजी	कृषि/जरायत /	629
106	746	निजी	कृषि/जरायत /	289
107	747	निजी	कृषि/जरायत /	1033
108	1809	निजी	कृषि/जरायत /	408
109	736	निजी	कृषि/जरायत /	286
110	748	निजी	कृषि/जरायत /	768
111	755	निजी	कृषि/जरायत /	845
112	696	निजी	कृषि/जरायत /	1196
113	1806	निजी	कृषि/जरायत /	431
114	757	निजी	कृषि/जरायत /	306
115	754	निजी	कृषि/जरायत /	916
116	695	निजी	कृषि/जरायत /	2822

117	1805	निजी	कृषि/जरायत /	596
118	751	निजी	कृषि/जरायत /	178
119	749	निजी	कृषि/जरायत /	1690
120	697	निजी	कृषि/जरायत /	278
121	750	निजी	कृषि/जरायत /	1434
122	693	निजी	कृषि/जरायत /	1250
123	नदी	सरकारी	नदी	1634
			<b>कुल (वर्गमीटर)</b>	<b>154908</b>

जिला: वडोदरा तालुका: सावली

गांव : हरीपुरा

1	240	निजी	कृषि/जरायत /	201
2	241	निजी	कृषि/जरायत /	531
3	242	निजी	कृषि/जरायत /	443
4	243	निजी	कृषि/जरायत /	327
5	244	निजी	कृषि/जरायत /	230
6	249	निजी	कृषि/जरायत /	300
7	250	निजी	कृषि/जरायत /	376
8	254	निजी	कृषि/जरायत /	124
9	239	निजी	कृषि/जरायत /	301
10	245	निजी	कृषि/जरायत /	473
11	246	निजी	कृषि/जरायत /	78
12	247	निजी	कृषि/जरायत /	312
13	248	निजी	कृषि/जरायत /	256
14	251	निजी	कृषि/जरायत /	181
15	252	निजी	कृषि/जरायत /	162
16	253	निजी	कृषि/जरायत /	185
17	256	निजी	कृषि/जरायत /	206
18	257	निजी	कृषि/जरायत /	123
19	259	निजी	कृषि/जरायत /	282
20	260	निजी	कृषि/जरायत /	234
21	261	निजी	कृषि/जरायत /	197
22	262	निजी	कृषि/जरायत /	218
23	263	निजी	कृषि/जरायत /	248
24	264	निजी	कृषि/जरायत /	415
25	नंबर नहीं	निजी	कृषि/जरायत /	1596
26	285	निजी	कृषि/जरायत /	1188

27	286	निजी	कृषि/जरायत /	600
28	268	निजी	कृषि/जरायत /	290
29	269	निजी	कृषि/जरायत /	147
30	270	निजी	कृषि/जरायत /	77
31	271	निजी	कृषि/जरायत /	100
32	272	निजी	कृषि/जरायत /	61
33	266	निजी	कृषि/जरायत /	474
34	265	निजी	कृषि/जरायत /	564
35	278	निजी	कृषि/जरायत /	823
36	438	निजी	कृषि/जरायत /	393
37	नंबर नहीं	निजी	कृषि/जरायत /	392
38	281	निजी	कृषि/जरायत /	519
39	282	निजी	कृषि/जरायत /	595
40	283	निजी	कृषि/जरायत /	690
41	284	निजी	कृषि/जरायत /	557
42	287	निजी	कृषि/जरायत /	581
43	288	निजी	कृषि/जरायत /	707
44	330	निजी	कृषि/जरायत /	2504
45	333	निजी	कृषि/जरायत /	2749
46	320	निजी	कृषि/जरायत /	94
47	रोड	सरकारी	रोड	144
48	339	निजी	कृषि/जरायत /	499
49	338	निजी	कृषि/जरायत /	67
50	343	सरकारी	सरकारी पडतर	2661
51	344	सरकारी	सरकारी पडतर	705
52	345	सरकारी	सरकारी पडतर	2560
53	346	सरकारी	सरकारी पडतर	3753
54	373	सरकारी	सरकारी पडतर	6477
55	374	निजी	सरकारी पडतर	1081
56	187	निजी	कृषि/जरायत /	834
57	377	निजी	कृषि/जरायत /	3437
58	378	निजी	कृषि/जरायत /	6810
59	375	निजी	कृषि/जरायत /	526
60	379	निजी	कृषि/जरायत /	2395
61	381	निजी	कृषि/जरायत /	7361
62	380	निजी	कृषि/जरायत /	2156



63	382	निजी	कृषि/जरायत /	4852
			कुल (वर्गमीटर)	68422
जिला: वडोदरा तालुका: सावली				
गांव : वडदला				
1	364	निजी	कृषि	1948
			कुल (वर्गमीटर)	1948

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण क्षेत्र का ग्रामवार सारांश			
अनुक्रमांक	तालुका	गाँव का नाम	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(अ)	वाघोडिया		
1		रायनतलावडी	1,59,820
2		व्यंकटपुरा	59,362
3		जरोद	1,54,908
(ब)	सावली		
1		हरीपुरा	68,422
2		वडदला	1,948
कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में			4,44,460.00
कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में			44.446

[फा. सं. ई-आफिस-E-379287-6]

के. एल. मीना, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[Western Railway (Construction Organization)]**  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 17th January, 2024

**S.O. 249(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act 2008), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Gauge Conversion of Dabhoi Samalaya (46.45 Km) including Samalaya Railway fly over bridge (8.40 Km) and Lotana bye pass line (7.55 Km) Project in District Vadodara in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer Dabhoi, Taluka Seva Sadan office Dabhoi and Prant Officer Savli Taluka Sevasadan, office Savli, District Vadodara, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely: Gauge Conversion of Dabhoi Samalaya (46.45 Km) including Samalaya Railway fly over bridge (8.40 Km) and Lotana bye pass line (7.55 Km) Project in the state of Gujarat.**

**State : GUJARAT****District : Vadodara**

Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm)
<b>Taluka : Waghodiya</b>				
<b>Village: Rayan Talavadi</b>				
1	164	VMC Land	Govt.Padtar	76557
2	174	Private	Agricultural/Jarayat	26479
3	202	Private	Agricultural/Jarayat	381
4	96/32	Private	Agricultural/Jarayat	13452
5	225	Private	Agricultural/Jarayat	12184
6	181	Private	Agricultural/Jarayat /	762
7	184	Private	Agricultural/Jarayat	9991
8	96/23	Private	Agricultural/Jarayat /	437
9	187	Private	Agricultural/Jarayat	12640
10	194	Private	Agricultural/Jarayat /	6937
			<b>TOTAL (Sqm.)</b>	<b>159820</b>
<b>Taluka : Waghodiya</b>				
<b>Village : Vyankatpura</b>				
1	146	Private Land	Agricultural/Jarayat /	5853
2	144	Private Land	Agricultural/Jarayat /	5725
3	CANAL	Government Land	CANAL	1450
4	364	Private Land	Agricultural/Jarayat /	435
5	10	Private Land	Agricultural/Jarayat /	448
6	363	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1459
7	9	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2159
8	362	Private Land	Agricultural/Jarayat /	188
9	8	Government Land	Padtar	2240
10	14	Private Land	Agricultural/Jarayat /	3545
11	16	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2327
12	15	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1761
13	19	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2241
14	55	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1455
15	51	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1727
16	20	Private Land	Agricultural/Jarayat /	4048
17	50	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1729
18	22	Government Land	Agricultural	898
19	43	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1021
20	41	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1158
21	42	Government Land	Agricultural/Jarayat /	172
22	390	Private Land	Agricultural/Jarayat /	601
23	115	Private Land	Agricultural/Jarayat /	107
24	387	Private Land	Agricultural/Jarayat /	6397

25	389	SARDAR SAROVAR PUNAHVASVAT	Agricultural	88
26	CANAL	Government Land	CANAL	1621
27	386	SARDAR SAROVAR PUNAHVASVAT	Agricultural	111
28	385	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2087
29	391	Private Land	Agricultural/Jarayat /	954
30	384	Government Land		4659
31	99	Private Land	Agricultural/Jarayat /	244
32	63	Private Land	Agricultural/Jarayat /	454
			<b>TOTAL (Sqm.)</b>	<b>59362</b>

**Taluka : Waghodiya****Village : Jarod**

1	1480	SARDAR SAROVAR PUNAHVASVAT	Agricultural/Jarayat /	87
2	1840	Private Land	Agricultural/Jarayat /	433
3	1479	Private Land	Agricultural/Jarayat /	925
4	1842	Private Land	Agricultural/Jarayat /	809
5	1476	Private Land	Agricultural/Jarayat /	361
6	1841	SARDAR SAROVAR PUNAHVASVAT	Agricultural/Jarayat /	1792
7	1478	Private Land	Agricultural/Jarayat /	432
8	1468	Private Land	Agricultural/Jarayat /	255
9	1187/2PAIKI4	Private Land	Agricultural/Jarayat /	22
10	1466	Government Land	Sarkari Padtar	2507
11	1839	Government Land	Sarkari Padtar	4920
12	1838	Private Land	Agricultural/Jarayat /	935
13	1322	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1993
14	1321	Private Land	Agricultural/Jarayat /	5424
15	1453	Private Land	Agricultural/Jarayat /	447
16	1333	Private Land	Agricultural/Jarayat /	925
17	1837	Private Land	Agricultural/Jarayat /	107
18	1352	Private Land	Agricultural/Jarayat /	494
19	1836	Private Land	Agricultural/Jarayat /	401
20	1835	Private Land	Agricultural/Jarayat /	87
21	1346	Private Land	Agricultural/Jarayat /	420
22	1347	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1958
23	1834	Private Land	Agricultural/Jarayat /	3828
24	1830	Private Land	Agricultural/Jarayat /	4577
25	1325	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2679
26	1827	Private Land	Agricultural/Jarayat /	639
27	1298	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1825
28	1297	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1542
29	1294	Private Land	Agricultural/Jarayat /	5033
30	1293	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1563

31	1295	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1302
32	1296	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1491
33	1030	Private Land	Agricultural/Jarayay /	169
34	1229	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1214
35	1826	Private Land	Agricultural/Jarayay /	532
36	1277	Private Land	Agricultural/Jarayay /	2210
37	1825	Private Land	Agricultural/Jarayay /	218
38	1280	Private Land	Agricultural/Jarayay /	292
39	1232	Private Land	Agricultural/Jarayay /	823
40	1231	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1287
41	1278	Private Land	Agricultural/Jarayay /	892
42	1276	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1565
43	1233	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1219
44	1272	Private Land	Agricultural/Jarayay /	3032
45	1274	Private Land	Agricultural/Jarayay /	514
46	1823	Private Land	Agricultural/Jarayay /	144
47	1822	Private Land	Agricultural/Jarayay /	244
48	NO NUMBER	Private Land	Agricultural/Jarayay /	702
49	1273	Private Land	Agricultural/Jarayay /	716
50	1275	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1646
51	1239	Private Land	Agricultural/Jarayay /	559
52	1238	Private Land	Agricultural/Jarayay /	749
53	1262	Private Land	Agricultural/Jarayay /	146
54	1240	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1930
55	1245	Private Land	Agricultural/Jarayay /	3572
56	1821	Private Land	Agricultural/Jarayay /	308
57	NO NUMBER	Private Land	Agricultural/Jarayay /	34
58	1241	Private Land	Agricultural/Jarayay /	898
59	1242	Private Land	Agricultural/Jarayay /	424
60	1243	Private Land	Agricultural/Jarayay /	395
61	1244	Private Land	Agricultural/Jarayay /	858
62	1248	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1008
63	NO NUMBER	Private Land	Agricultural/Jarayay /	56
64	1820	Private Land	Agricultural/Jarayay /	425
65	1247	Private Land	Agricultural/Jarayay /	4194
66	1155	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1666
67	NO NUMBER	Private Land	Agricultural/Jarayay /	93
68	NO NUMBER	Private Land	Agricultural/Jarayay /	3308
69	NO NUMBER	Private Land	Agricultural/Jarayay /	782
70	1114	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1043
71	1819	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1626
72	1112	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1382
73	1115	Private Land	Agricultural/Jarayay /	3121
74	1113	Private Land	Agricultural/Jarayay /	120
75	1818	Private Land	Agricultural/Jarayay /	2090
76	1116	Private Land	Agricultural/Jarayay /	6195
77	NALA	Government Land	NALA	164
78	1817	Private Land	Agricultural/Jarayay /	1567

79	1118	Private Land	Agricultural/Jarayat /	593
80	1117	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2978
81	1813	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2958
82	1815	Government Land	Sarkari Padtar	865
83	1814	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1657
84	1142	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2230
85	1181	Private Land	Agricultural/Jarayat /	13
86	1810	Private Land	Agricultural/Jarayat /	97
87	797	Government Land	ROAD	522
88	799	Private Land	Agricultural/Jarayat /	734
89	796	Private Land	Agricultural/Jarayat /	317
90	1811	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1292
91	798	Government Land	ROAD	986
92	805	Private Land	Agricultural/Jarayat /	466
93	1812	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2354
94	800	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1998
95	ROAD	Government Land	ROAD	280
96	781	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1905
97	776	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2148
98	779	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2061
99	778	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1306
100	740	Private Land	Agricultural/Jarayat /	912
101	739	Private Land	Agricultural/Jarayat /	630
102	1807	Private Land	Agricultural/Jarayat /	189
103	742	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1585
104	738	Private Land	Agricultural/Jarayat /	498
105	1808	Private Land	Agricultural/Jarayat /	629
106	746	Private Land	Agricultural/Jarayat /	289
107	747	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1033
108	1809	Private Land	Agricultural/Jarayat /	408
109	736	Private Land	Agricultural/Jarayat /	286
110	748	Private Land	Agricultural/Jarayat /	768
111	755	Private Land	Agricultural/Jarayat /	845
112	696	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1196
113	1806	Private Land	Agricultural/Jarayat /	431
114	757	Private Land	Agricultural/Jarayat /	306
115	754	Private Land	Agricultural/Jarayat /	916
116	695	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2822
117	1805	Private Land	Agricultural/Jarayat /	596
118	751	Private Land	Agricultural/Jarayat /	178
119	749	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1690
120	697	Private Land	Agricultural/Jarayat /	278
121	750	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1434
122	693	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1250
123	RIVER	Government Land	RIVER	1634
			<b>TOTAL (Sqm.)</b>	<b>154908</b>

<b>Taluka : Savali</b>				
<b>Village : Haripura</b>				
1	240	Private Land	Agricultural/Jarayat /	201
2	241	Private Land	Agricultural/Jarayat /	531
3	242	Private Land	Agricultural/Jarayat /	443
4	243	Private Land	Agricultural/Jarayat /	327
5	244	Private Land	Agricultural/Jarayat /	230
6	249	Private Land	Agricultural/Jarayat /	300
7	250	Private Land	Agricultural/Jarayat /	376
8	254	Private Land	Agricultural/Jarayat /	124
9	239	Private Land	Agricultural/Jarayat /	301
10	245	Private Land	Agricultural/Jarayat /	473
11	246	Private Land	Agricultural/Jarayat /	78
12	247	Private Land	Agricultural/Jarayat /	312
13	248	Private Land	Agricultural/Jarayat /	256
14	251	Private Land	Agricultural/Jarayat /	181
15	252	Private Land	Agricultural/Jarayat /	162
16	253	Private Land	Agricultural/Jarayat /	185
17	256	Private Land	Agricultural/Jarayat /	206
18	257	Private Land	Agricultural/Jarayat /	123
19	259	Private Land	Agricultural/Jarayat /	282
20	260	Private Land	Agricultural/Jarayat /	234
21	261	Private Land	Agricultural/Jarayat /	197
22	262	Private Land	Agricultural/Jarayat /	218
23	263	Private Land	Agricultural/Jarayat /	248
24	264	Private Land	Agricultural/Jarayat /	415
25	NO NUMBER	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1596
26	285	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1188
27	286	Private Land	Agricultural/Jarayat /	600
28	268	Private Land	Agricultural/Jarayat /	290
29	269	Private Land	Agricultural/Jarayat /	147
30	270	Private Land	Agricultural/Jarayat /	77
31	271	Private Land	Agricultural/Jarayat /	100
32	272	Private Land	Agricultural/Jarayat /	61
33	266	Private Land	Agricultural/Jarayat /	474
34	265	Private Land	Agricultural/Jarayat /	564
35	278	Private Land	Agricultural/Jarayat /	823
36	438	Private Land	Agricultural/Jarayat /	393
37	NO NUMBER	Private Land	Agricultural/Jarayat /	392
38	281	Private Land	Agricultural/Jarayat /	519
39	282	Private Land	Agricultural/Jarayat /	595
40	283	Private Land	Agricultural/Jarayat /	690
41	284	Private Land	Agricultural/Jarayat /	557
42	287	Private Land	Agricultural/Jarayat /	581
43	288	Private Land	Agricultural/Jarayat /	707
44	330	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2504
45	333	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2749
46	320	Private Land	Agricultural/Jarayat /	94

47	ROAD	Government Land		144
48	339	Private Land	Agricultural/Jarayat /	499
49	338	Private Land	Agricultural/Jarayat /	67
50	343	Government Land	Sarkari Padtar	2661
51	344	Government Land	Sarkari Padtar	705
52	345	Government Land	Sarkari Padtar	2560
53	346	Government Land	Sarkari Padtar	3753
54	373	Government Land	Sarkari Padtar	6477
55	374	Private Land	Agricultural/Jarayat /	1081
56	187	Private Land	Agricultural/Jarayat /	834
57	377	Private Land	Agricultural/Jarayat /	3437
58	378	Private Land	Agricultural/Jarayat /	6810
59	375	Private Land	Agricultural/Jarayat /	526
60	379	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2395
61	381	Private Land	Agricultural/Jarayat /	7361
62	380	Private Land	Agricultural/Jarayat /	2156
63	382	Private Land	Agricultural/Jarayat /	4852
			<b>TOTAL (Sqm.)</b>	<b>68422</b>
Taluka : Savali				
Village: Vadadala				
1	364	Private	Agricultural	1948
			<b>TOTAL (Sqm.)</b>	<b>1948</b>

Summary of Proposed Land acquisition Area Village wise.			
Sr.No.	Name of Taluka	Name of Village	Area of Land to be Acquire (in Sqm)
(A)	<b>Waghodiya</b>		
1		Rayana Talavadi	1,59,820
2		Vyankatpura	59,362
3		Jarod	1,54,908
(B)	<b>Savali</b>		
1		Haripura	68,422
2		Vadadala	1,948
		<b>Total Area in Sq.M</b>	<b>4,44,460.00</b>
		<b>Total Area in (Ha)</b>	<b>44.446</b>

[F. No. E Office E-379287-6]

K. L. MEENA, Chief Project Manager (Construction)